



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 1980/पौष 21, 1901

No. 13]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 1980/PAUSA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(2)

विधायी विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1980

का० धा० 13(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणार्थ, जिनमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

गुजरात

(1)

"गुजरात में 1-कण्ठ—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री मेहता महिपाले मूलशंकर, डा० एम० एम० मेहता रोड, नगर चकला, भुज-कण्ठ।

उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: भुज

तारीख: 6-1-1980

(ह०) एल० एम० सूद,
रिटनिंग आफिसर।"

"गुजरात में 2-सुरेन्द्र नगर—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री दिग्विजयसिंह प्रतापसिंह भाला, रणजीत विलास पैलेस, बांकानेर 363621

उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: सुरेन्द्र नगर

तारीख: 7-1-1980

(ह०) ए० के० प्रधान,
रिटनिंग आफिसर।"

(3)

"गुजरात में 3-जामनगर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री जाडेजा दीलतसिंह जी प्रताप सिंह जी, पंजवटी सोसाइटी, बेबीनवर रोड, जामनगर।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जामनगर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० मंगेर,
रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“गुजरात में 4-राजकोट—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भावाणी रामजीभाई भुराभाई, दरबारगढ़ के पास, धोराजी, जिला राजकोट।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : राजकोट

तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० आर० बनजौ,
रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“गुजरात में 5-पोरबंदर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री ओडेदरा मालदेवजी मंडलीकजी, सत्यनारायण मंवरि रोड, पोरबंदर (गुजरात)।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पोरबंदर

तारीख : 6-1-1980

(ह०) जी० आर० विही,
रिटनिंग आफिसर।”

(6)

“गुजरात में 6-जूनागढ़—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि,

जूनागढ़ के श्री पटेल मोहन लाल लालजी भाई 5-अयथी नगर, ‘दर्पण’। उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जूनागढ़

तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० एम० भारद्वाज
रिटनिंग आफिसर।”

(7)

“गुजरात में 7-अमरेली—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री रवाणी नबिनबख्श परमानन्द दास, गान्धी सोसाइटी, सावर कुंठला। उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अमरेली

तारीख : 6-1-1980

(ह०) मंजूला सुब्रह्मण्यम,
रिटनिंग आफिसर।”

(8)

“गुजरात में 8-भावनगर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गोहिल गीगाभाई भाबुभाई, स्थान : खारी, डाक घर गलधर, तालुका—महुवा, जि० भावनगर।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भावनगर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) के० सी० महुपात्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“गुजरात में 9-ग्रंधुका (अ० जा०)—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भकवाणा नरसिंहभाई करशनभाई, 34-जयजगत सोमायटी, बहुरामपुर, अहमदाबाद।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अहमदाबाद

तारीख : 6-1-1980

(ह०) जे० एस० राणा
रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“गुजरात में 10-अहमदाबाद—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मगनभाई रणछोडदास बारोद, लावण्य, सरदार स्टेडियम के पास, अहमदाबाद।

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अहमदाबाद

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अशोक चावला,
रिटनिंग आफिसर।”

(11)

"गुजरात में 11—गांधी नगर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री अमृत मोहन लाल पटेल, 22/ए-मेहूर अपार्टमेंट, अनेस्टो रोड
आफ ग्लेमाउन्ट, गेड, मुम्बई, 400028

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अहमदाबाद
तारीख : 7-1-1980

(ह०) पी० बी० बुध,
रिटनिंग आफिसर।"

(12)

"गुजरात में 12—मेहसाना—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री चौधरी मोती भाई रणछोड़भाई, ग्राम भारती, ग्राम-अमरापुर,
तालुका : कालोल, जिला मेहसाना

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मेहसाना
तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० डब्ल्यू० पी० डेविड
रिटनिंग आफिसर।"

(13)

"गुजरात में 13—पाटन (अ० जा०)—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री परमार हीरालाल रणछोड़वास, सर्वोदय नगर सोसाइटी, मेहसाना
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पाटन
तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० सी० जोशी,
रिटनिंग आफिसर।"

(14)

"गुजरात में 14—बनासकंठा—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भेराबदन खेतदानजी गधवी, सुखबाग, पालनपुर, जिला बनासकंठा
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पालनपुर
तारीख : 7-1-1980

(ह०) के०सी० कपूर,
रिटनिंग आफिसर।"

(15)

"गुजरात में 15—साबरकंठा—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शान्तुभाई चुन्नीभाई पटेल, देसाई नगर, पोस्ट आफिस के पास,
स्थान व डाकघर तालोद, तालुका: प्रांतीज, जिला साबरकंठा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : हिम्मत नगर
तारीख : 6-1-1980

(ह०) एम० बी० सोलंकी,
रिटनिंग आफिसर।"

(16)

"गुजरात में 16—कपाड़वंज—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सोलंकी नटवर सिंहजी केसर सिंहजी, स्थान व डाकघर मोगर,
तालुका : भाणंद, जिला खेडा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : हिम्मतनगर
तारीख : 6-1-1980

(ह०) के० बी० मेहता,
रिटनिंग आफिसर।"

(17)

"गुजरात में 17—दोहूप (अ० ज० ज०)—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सोमजी भाई पुत्राभाई दामोर, अमृत आदिवासी सोसाइटी,
बकमिया रोड, दोहूप

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : दोहूप
तारीख : 6-1-1980

(ह०) एस० डी० शर्मा,
रिटनिंग आफिसर।"

(18)

"गुजरात में 18—गोधरा—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री महारावल जयदीपसिंहजी, सुमगांसिंह जी, 'अवली' देवगढ़—
बारिया

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।”

स्थान : गोधरा

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एस०सी० हलदर,
रिटनिंग आफिसर।”

(19)

“गुजरात में 19-कैरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री अजीत सिंह फूलसिंह जी बामी,
8-सारस्वत, कोम्पारटिब हाउसिंग सोसाइटी, रेलवे स्टेशन के पीछे,
नाडियाड।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नाडियाड

तारीख : 7-1-1980

(ह०) सी० फर्नाण्डेज,
रिटनिंग आफिसर।”

(20)

“गुजरात में 20-आणंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री ईश्वर भाई खोडा भाई चावड़ा,
सत्याग्रह छावनी, बोरसद, जिला कैरा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : आणंद

तारीख : 6-1-1980

(ह०) कुन्वर लाल,
रिटनिंग आफिसर।”

(21)

“गुजरात में 21-छोटा उदयपुर (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री राठवा अमरसिंह भाई बोरियाभाई

स्थान—बिजली, तालुका : छोटा उदयपुर, जिला डौदा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : डौदा

तारीख : 6-1-1980

(ह०) जे० एच० गोह्ले,
रिटनिंग आफिसर।”

(22)

“गुजरात में 22-बड़ोदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गायकवाड रंजीतसिंहजी प्रतापसिंहजी

लक्ष्मी विलास पैलेस, बड़ोदा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बड़ोदा

तारीख : 8-1-1980

(ह०) एस० के० बोधरी,
रिटनिंग आफिसर।”

(23)

“गुजरात में 23-भड़ौच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री पटेल अहमद भाई मोहम्मद भाई,

पटेल फलीया, स्थान पारामण, तालुक अंकलेश्वर, जिला भड़ौच

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भड़ौच

तारीख : 8-1-1980

(ह०) संजीव मिश्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(24)

“गुजरात में 24-सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री छगन भाई देव भाई पटेल, तैबाड, स्थान नवसारी

जिला वालसाड

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : सूरत

तारीख : 8-1-1980

(ह०) बी० नरसिम्ह,
रिटनिंग आफिसर।”

(25)

“गुजरात में 25-भाइबी (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 68 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गमित छिपुभाई देवजीभाई, स्थान श्रीर डाक घर कनजोड़,
तामुका बलोड, जिला सूरत

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : सूरत

तारीख : 6-1-1980

(ह०) पी० बी० आस,
रिटनिंग आफिसर।"

(26)

"गुजरात में 26—बलसार (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री पटेल उत्तमभाई हरजीभाई, स्थान श्रीर डाकघर हुमलाव, ता० पारडी, जिला बलसार,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बलसार

तारीख : 6-1-1980

(ह०) अष्टनीय,
रिटनिंग आफिसर।"

महाराष्ट्र

(1)

"महाराष्ट्र में 1—राजापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

प्रो० मधु दंडवते,

के-1, शारदाश्रम, भवानी शंकर रोड, दावर, मुम्बई-28,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : रत्नागिरि

तारीख : 7-1-1980

(ह०) प्रार० बी० बुद्धिराजा,
रिटनिंग आफिसर।"

(2)

"महाराष्ट्र में 2—रत्नागिरि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बापुसाहेब फरलेकर,

घान्द मदन, रत्नागिरि,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुई हैं।

स्थान : रत्नागिरि

तारीख : 7-1-1980

(ह०) प्रार० बी० बुद्धिराजा,
रिटनिंग आफिसर।"

(3)

"महाराष्ट्र में 3—कुलाबा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री अम्बाजी तुकाराम पाटील,

स्थान श्रीर डाकघर वाशी, तहसील पेण, जिला कुलाबा,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अलीबाग

तारीख : 7-1-1980

(ह०) प्रार० सी० जोशी,
रिटनिंग आफिसर।"

(4)

"महाराष्ट्र में 4—मुम्बई वरिष्ठ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री राजदा रतनसिंह गोकुलदास,

145-सी, डा० विगास स्ट्रीट, मुम्बई-40002,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 7-1-1980

(ह०) न-व लाल,
रिटनिंग आफिसर।"

(5)

"महाराष्ट्र में 5—मुम्बई वरिष्ठ केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री प्रार० प्रार० भोले,

411, शालाका, महर्षि कर्वे रोड, कूपरेज, मुम्बई-21,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 6-1-1980

(ह०) गोविन्द स्वराज,
रिटनिंग आफिसर।"

(6)

"महाराष्ट्र में 6—मुम्बई उत्तर केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्रीमती प्रमिला मधु दंडवते,

के-1, शारदाश्रम, भवानी शंकर रोड, दावर, मुम्बई-400028,

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुई हैं।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 6-1-1980

(ह०) जे० एन० पिपले,
रिटनिंग आफिसर।"

(7)

“महाराष्ट्र में 7—मुम्बई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

डा० सुब्रामण्यम स्वामी, बाक ई० सारा, 16-नेपियन सी रोड, मुम्बई-400036,

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 7-1-1980

(ह०) बी० एम० करंदिकर,
रिटनिंग आफिसर।”

(8)

“महाराष्ट्र में 8—मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री राम जेठमलानी, ऐडवोकेट, 2 प्रवेश द्वार, जेनेरल जगन्नाथ भोंसले मार्ग, कोलाबा, मुम्बई-400005,

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मुम्बई

तारीख : 8-1-1980

(ह०) धार० वाई० गायकवाड,
रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“महाराष्ट्र में 9—मुम्बई उत्तर-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री रवीन्द्र बर्मा, द्वारा श्री हयमुख बी० उपाध्याय, ए/14, कपोल सोसाइटी, मार्ब रोड, मलाड, मुम्बई-64

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जोगेश्वरी, मुम्बई

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अष्टमीय,
रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“महाराष्ट्र में 10—बाना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री म्हालगो रामचन्द्र काशिनाथ, 465-शनिवार पेठ, पुणे, महाराष्ट्र राज्य

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बाना

तारीख : 8-1-1980

(ह०) ए० बी० गोकाक,
रिटनिंग आफिसर।”

(11)

“महाराष्ट्र में 11—बृहानू (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शिंगडा दामू बारकू, स्थान और हाकबर पोशेरी, तहसील बाडा, जिला धाना (महाराष्ट्र)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : धाना

तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० बी० गोकाक,
रिटनिंग आफिसर।”

(12)

“महाराष्ट्र में 12—नासिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री वाघ प्रताप देवराम, मकान सं० 479, वाघ बंगला, चारपूरेछाट नाशिक-422002

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नाशिक

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अरुण कुमार भागो,
रिटनिंग आफिसर।”

(13)

“महाराष्ट्र में 13—मालेगांव (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री कहांडोले शामर मंगलू, माणी, तालुका मुराणा, जिला नाशिक,

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नाशिक

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अरुण कुमार भागो,
रिटनिंग आफिसर।”

(14)

“महाराष्ट्र में 14-घुले (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भोये रेशमा भोतिराम, डाकघर कुडाशी तलुका साक्री, जिला घुले, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : घुले

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अमिताभ चन्द्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(15)

“महाराष्ट्र में 15-नंरुबर (अ०ज०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री नार्दक सुरपसिंह हिर्यी, डाकघर मवागांव तलुका मवापुर, जिला घुले, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : घुले

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अमिताभ चन्द्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(16)

“महाराष्ट्र में 16-एरंडोल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री विजय कुमार नवल पाटील, स्थान श्रीर डाकघर नवलनगर, तलुका श्रीर जिला घुले

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जलगांव

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एन० रामाराव,
रिटनिंग आफिसर।”

(17)

“महाराष्ट्र में, 17-जलगांव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री यादव शिवराम महाजन, 7/1 प्रतापनगर, जिंशा पेठ, जलगांव उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जलगांव

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एन० रामाराव,
रिटनिंग आफिसर।”

(18)

“महाराष्ट्र में 18-बुसठाणा (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री वासनिक बालकृष्ण रामचन्द्र, 365, गांधी नगर, नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बुसठाणा

तारीख : 7-1-1980

(ह०) प्रो० पी० गहरोजा,
रिटनिंग आफिसर।”

(19)

“महाराष्ट्र में 19-अकोला संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बेराले मधुसूदन आत्माराम चन्द्रकिरण, सिविल लाइन्स, अकोला उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अकोला

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एस० बी० जोशी,
रिटनिंग आफिसर।”

(20)

“महाराष्ट्र में 20-बाशिम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गुलाम नबी आजाद, 24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अकोला

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एस० बी० जोशी,
रिटनिंग आफिसर।”

(21)

“महाराष्ट्र में 21-अमरावती संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी, मुघोलकद पेठ, अमरावती
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुई हैं।

स्थान : अमरावती
तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० वास गुप्ता,
रिटनिंग आफिसर।”

(22)

“महाराष्ट्र में 22-रामटेक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, घोषणा करता हूँ कि,

श्री बरवे जतीराम चैतराम, वार्ड नं० 12, रामटेक, स्थान, डाकघर
घरीर तहसील-रामटेक, जिला नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नागपुर
तारीख : 8-1-1980

(ह०) पी०पी० गोबिंदलवार,
रिटनिंग आफिसर।”

(23)

“महाराष्ट्र में 23-नागपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री छोटे जाम्बुवन्त बापूराव, रवि नगर, सी-20/4 नागपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नागपुर
तारीख : 8-1-1980

(ह०) पी० पी० गोबिंदलवार,
रिटनिंग आफिसर।”

(24)

“महाराष्ट्र में 24-भण्डारा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री पारधी केशवराव आरमाराम जी, इम्बिरा नगर, तुमसर, जिला भण्डारा,
महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भण्डारा
तारीख : 7-1-1980

(ह०) जी० सी० त्रिपाठी,
रिटनिंग आफिसर।”

(25)

“महाराष्ट्र में 25-चिमूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मुत्तैमवार विलास बाबूराव, बाजार वार्ड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भण्डारा
तारीख : 7-1-1980

(ह०) जी० सी० त्रिपाठी,
रिटनिंग आफिसर।”

(26)

“महाराष्ट्र में 26-चन्द्रापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शान्ताराम राजेश्वर पोटडुखे, जलनगर वार्ड, स्थान घरीर डाकघर
चन्द्रापुर, तहसील घरीर जिला चन्द्रापुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : चन्द्रापुर
तारीख : 7-1-1980

(ह०) जे० जोसेफ,
रिटनिंग आफिसर।”

(27)

“महाराष्ट्र में 27-वर्धा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बसन्तराव साठे, धन्तोली, नागपुर, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : वर्धा
तारीख : 7-1-1980

(ह०) एस० जी० वैठणकर,
रिटनिंग आफिसर।”

(28)

“महाराष्ट्र में 28-यवतमाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री पाटिल उत्तमराव वैवराव,

स्थान और डाकघर लोनी, तालुका दारुहा, जिला यवतमाल उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : यवतमाल

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एन. हमिंगलियाना,
रिटनिंग आफिसर।”

(29)

“महाराष्ट्र में 29-हिंगोली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री उत्तमराव बलीराम जी राठौड़,

स्थान और डाकघर भांडेवी, तालुका किनवट, जिला नांदेड़ उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नांदेड़

तारीख : 7-1-1980

(ह०) आर. तिवारी,
रिटनिंग आफिसर।”

(30)

“महाराष्ट्र में 30-नांदेड़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री लक्ष्मण शंकर राव भाकराव,

स्थान और डाकघर धनेगांव, तालुका और जिला नांदेड़ उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नांदेड़

तारीख : 7-1-1980

(ह०) आर० तिवारी,
रिटनिंग आफिसर।”

(31)

“महाराष्ट्र में 31-परभणी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री यादव रामराव नारायण राव,

स्थान और डाकघर लोणी ल्हाया आण्टी, तालुका परभूर, जिला परभणी

1080 GI/79-2

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : परभणी

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अश्वनीय,
रिटनिंग आफिसर।”

(32)

“महाराष्ट्र में 32-जालना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बालासाहेब पवार,

मुहल्ला गहाबाजार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : औरंगाबाद

तारीख : 7-1-1980

(ह०) जी० एम० संघु,
रिटनिंग आफिसर।”

(33)

“महाराष्ट्र में 33-औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री काजी सलीम,

मजूरपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : औरंगाबाद

तारीख : 7-1-1980

(ह०) जी० एम० संघु,
रिटनिंग आफिसर।”

(34)

“महाराष्ट्र में 34-बीड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सी क्षीरसागर केकरबाई सोताजीराव उर्फ काकु

स्थान और डाकघर राजुरी बाजार, तालुका बीड, जिला बीड, महाराष्ट्र

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बीड

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एम० जी० साखकर,
रिटनिंग आफिसर।”

(35)

“महाराष्ट्र में 35-नातूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शिवराज विश्वनाथ पाटिल,
नि० निलकनगर, लातूर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: उस्मानाबाद
तारीख: 7-1-1980

(ह०) ए० एल० बोंगीरवार,
रिटनिंग आफिसर।”

(36)

“महाराष्ट्र में 36-उस्मानाबाद (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री साबन्त त्रयम्बक मारोतराव,
नि० गंगाम्बे, जिला परभणी

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: उस्मानाबाद
तारीख: 7-1-1980

(ह०) ए० एल० बोंगीरवार,
रिटनिंग आफिसर।”

(37)

“महाराष्ट्र में 37-शोलापुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री कुचन गंगाधर मित्रामप्पा,
386/87, गोडभावी पेठ, शोलापुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: शोलापुर
तारीख: 7-1-1980

(ह०) पी० डी० करंदिकर,
रिटनिंग आफिसर।”

(38)

“महाराष्ट्र में 38-पंढरपुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शोराव संवीपन भगवान,
16/120, शिवाजीनगर मोदीखाना, शोलापुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: शोलापुर

तारीख: 7-1-1980

(ह०) पी० डी० करंदिकर,
रिटनिंग आफिसर।”

(39)

महाराष्ट्र में 39-अहमदनगर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री आठरे चन्द्रभात बाला जी सतभाई साला, धातिकाश्रम के समीप,
दिल्ली रोड, अहमदनगर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: अहमदनगर

तारीख: 7-1-1980

(ह०)-एम० प्रभाकरन,

(40) रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 40-कोपरगाव संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री विश्वे एकनाथराव विठ्ठलराव,

स्थान कोती पी० के० डा०-कोती

खुर्द, तालुका श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: अहमदनगर

तारीख: 7-1-1980

(ह०) एम० प्रभाकरन,

(41) रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 41-खड संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मोरे, रामकृष्ण मठाशिव,

स्थान और डाकघर बेहू, तालुका हवेली, जिला पुणे

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: पुणे

तारीख: 7-1-1980

(ह०) बरतक,

(42) रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 42-पुणे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री विट्ठल नरहर गाडगिल 419, शनिवार पेठ, पुणे-30
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पुणे

तारीख : 7-1-1980

(43) (ह०) ए० एम० निम्बालकर,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 43-बागमती—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 61 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री शंकर राव बाजी राव पाटिल, शिव श्रीमा बंगला, महेश्वर हाउस-
मैंग सोमाइटी, गंगेश खण्ड रोड

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पुणे

तारीख : 7-1-1980

(44) (ह०) ए० एम० निम्बालकर,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 44-मतारा—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री चन्हाण यशवन्तराव बलवन्तराव, 13, 14, शिवाजी नगर, कराड़,
जिला मतारा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मतारा

तारीख : 7-1-1980

(45) (ह०) अरुण भाटिया,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 45-कराड़—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री यशवन्तराव जीवा मोहिते, सकान सं० 634 रेंडरो बी के,
तहसील कराड़, जिला मतारा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : मतारा

तारीख : 7-1-1980

(46) (ह०) अरुण भाटिया,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 46-सांगली—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री पाटिल वसन्तराव बन्दीजी, सकान सं० 161, पर्यमाणे, तालुका : मिरज,
जिला सांगली

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : सांगली

तारीख : 7-1-1980

(47) (ह०) बी० के० अग्रवाल,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 47-हवलक राजी—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री माने राजाराम उर्फ वाला साहेब शंकर राव, स्थान और डाकघर
स्काही, तालुका : हटकांगले, जिला कोल्हापुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : कोल्हापुर

तारीख : 7-1-1980

(48) (ह०) धार० एम० प्रम कुमार,
रिटनिंग आफिसर।”

“महाराष्ट्र में 48-कोल्हापुर—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गायकवाड़ उदय गिहू राव नाना साहेब, स्थान और डाक घर
सुपत्रि, तालुका : शाह वाडी, जिला कोल्हापुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : कोल्हापुर

तारीख : 7-1-1980

(1) (ह०) धार० एम० प्रम कुमार,
रिटनिंग आफिसर।”

“राजस्थान में 1—गंगानगर (अ०जा०)—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बीरबल, ग्राम और डाकघर मिर्जावाली मर, तहसील टी बी, जिला
गंगानगर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : श्री गंगानगर

तारीख : 8-1-1980

(ह०) एम० बी० को रामो,
रिटनिंग आफिसर।”

(2)

“राजस्थान में 2—बीकानेर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मनमूल सिंह, ग्राम श्रीर डाकघर बड़ोपाल, जिला श्री गंगानगर उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बीकानेर

तारीख : 8-1-1980

(ह०) गुमान सिंह,
रिटनिंग आफिसर।”

(3)

“राजस्थान में 3—चुरू—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री दोलत राम सारण, सी—128ए, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : चुरू

तारीख : 8-1-1980

(ह०) अमृताश्री,
रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“राजस्थान में 4—झुझुनू—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भीम सिंह, मण्डावा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : झुझुनू

तारीख : 8-1-1980

(ह०) एम० एस० मोगरा,
रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“राजस्थान में 5—सीकर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री कुम्भाराम आर्थ, चौधरी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : सीकर

तारीख : 8-1-1980

(ह०) परमेश चन्द्र,
रिटनिंग आफिसर।”

(6)

“राजस्थान में 6—जयपुर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल, एल-1, कृष्ण मार्ग, सी स्कीम जयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जयपुर

तारीख : 8-1-1980

(ह०) अमृताश्री,
रिटनिंग आफिसर।”

(7)

“राजस्थान में 7—दौसा—संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री नवल किशोर शर्मा, 50—बी०, जनता कालोनी, जयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जयपुर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अमृताश्री,
रिटनिंग आफिसर।”

(8)

“राजस्थान में 8—भलवर—संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री रामसिंह यादव, 28, लाजपत नगर, भलवर।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भलवर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) सुरेन्द्र कुमार,
रिटनिंग आफिसर।”

(9)

“राजस्थान में 9-भरतपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री राजेश पाइलेट,

92, अन्नन्द लोक, नई दिल्ली।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भरतपुर

(ह०) जी० एन० हल्विया,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(10)

“राजस्थान में 10-ब्याना संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया, निवासी भुसावर,

तह० बैर, जिला भरतपुर (राज०)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भरतपुर

(ह०) जी० एन० हल्विया,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(11)

“राजस्थान में 11-सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री राम कुमार, ग्राम गेखपुरा,

तह० सपोतरा, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : सवाई माधोपुर

(ह०) अपठनीय,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(12)

“राजस्थान में 12-अजमेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री आचार्य भगवानदेव, 139, जोषी रोड,

आर्य भवन, जोर बाग, नई दिल्ली

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : अजमेर

(ह०) प्रह्लाद राय,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(13)

“राजस्थान में 13-टोंक (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री बनवारी लाल बेरवा,

झौलतपुरा, धम्रा तलाई, टोंक

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : टोंक

(ह०) अपठनीय,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(14)

“राजस्थान में 14-कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री कृष्ण कुमार गोयल,

विज्ञान नगर, कोटा

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : कोटा

तारीख : 8-1-1980

(ह०) डी० सी० सामन्त,

रिटनिंग आफिसर।”

(15)

“राजस्थान में 15-झालावाड़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री चतुर्भुज,

ग्राम अन्ताना, तह० अटारू, जिला कोटा

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : झालावाड़

तारीख : 8-1-1980

(ह०) चंभरराज मेहता,

रिटनिंग आफिसर।”

(16)

“राजस्थान में 16-बामवाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भीष्माभाई,

बाड़ियों का डूंगरा, डाक० सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बामवाड़ा

(ह०) निहाल चन्द,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(17)

“राजस्थान में 17-माणुम्बर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री जयनारायण सुपुत्र श्री लालू,

2-क-17, सेक्टर नं० 13, हिरन मागरी, उदयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : उदयपुर (राजस्थान)

(ह०) बी० एम० मिन्हास,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(18)

“राजस्थान में 18-उदयपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मोहनलाल सुखाड़िया सुपुत्र श्री गुरुचोत्तमदास,

हुर्गा नर्सरी, उदयपुर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : उदयपुर (राजस्थान)

(ह०) बी० एम० मिन्हास,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(19)

“राजस्थान में 19-चित्तौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्रीमती निर्मला कुमारी,

फार्म हाउस, ग्राम और डाक० मोठाड़ी, बाया सांथी, जिला चित्तौड़गढ़

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुई हैं।

स्थान : चित्तौड़गढ़

(ह०) एस० डी० श्रीवास्तव,

रिटनिंग आफिसर।”

(20)

“राजस्थान में 20-भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री गिरधारी लाल,

बवनोर, तहसील प्रसीन्द

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : भीलवाड़ा

(ह०) जे० पी० मिह,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(21)

“राजस्थान में 21-पाली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री श्रील मूलचन्द ढागा,

प्रोधा जी का बास, पाली (राजस्थान)

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : पाली

(ह०) आनन्द प्रसाद,

तारीख : 8-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(22)

“राजस्थान में 22-जालौर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों के संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री विरवाराम,

जटिया का बास, भीममाला, जिला जालौर

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जालौर

(ह०) अमरनीय,

तारीख : 7-1-1980

रिटनिंग आफिसर।”

(23)

“राजस्थान में 23-बाड़मेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री विद्या चन्द, एडवोकेट,

सुनारों का बास, बाड़मेर

उपयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बाइमेर

तारीख : 8-1-1980

(ह०) अपठनीय
रिटनिंग आफिसर।”

“राजस्थान में 24-जोधपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए

निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री अशोक गलहोत,

बहापुरी, महामन्दिर, जोधपुर

उपयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : जोधपुर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अपठनीय
रिटनिंग आफिसर।”

(25)

“राजस्थान में 25-नागौर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि, श्री नाथू राम, ग्राम और डाक० कुबेरा, तहसील नागौर

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नागौर

तारीख : 7-1-1980

(ह०) प्रकाश चन्द्र जैन,
रिटनिंग आफिसर।”

बण्डीगढ़

(1)

“बण्डीगढ़ में 1-बण्डीगढ़ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि, श्री जयन्ताथ, सकात नं० 221 सेक्टर 9-सी बण्डीगढ़ उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बण्डीगढ़

तारीख : 6-1-1980

(ह०) अपठनीय
रिटनिंग आफिसर।”

दादरा और नागर हवेली

(1)

“दादरा और नागर हवेली में 1-दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के

अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि, श्री बाहाला रामजी बोडिबा, स्थान कौशा डा० दुधनी (दादरा और नागर हवेली)

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : बिलबामा

तारीख : 6-1-1980

(ह०) अपठनीय
रिटनिंग आफिसर।”

लक्षद्वीप

(1)

“लक्षद्वीप में 1-लक्षद्वीप (अ० ज० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री मुहम्मद सईद पवन्नाथा,

पदमाथा हाउस, अंडरोथ द्वीप

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : कावारली

तारीख : 6-1-1980

(ह०) एम० कुमारन,
रिटनिंग आफिसर।”

दिल्ली

(1)

“दिल्ली में 1-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री अटल बिहारी वाजपेयी,

7, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 6/7-1-1980

(ह०) जी० पी० सेवानिया,
रिटनिंग आफिसर।”

(2)

“दिल्ली में 2-दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्निहित उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री चरनजीव सिंह,

9, ब्लाक ए, वेस्ट फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली

उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 7-1-1980

(ह०) बी० प्रसाद,
रिटनिंग आफिसर।”

(3)

“दिल्ली में 3—बाहरी दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री सज्जन कुमार,

713-ए-बी०, पश्चिमपुरी, जन्ता कालोनी, मादीपुर नई दिल्ली उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : माडल टाउन

तारीख : 7-1-1980

(ह०) ए० सी० खेर,
रिटनिंग आफिसर।”

(4)

“दिल्ली में 4—पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री एच० के० एल० भगत,

डी०-14 ए/114, माडल टाउन, दिल्ली

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एम० डी० सिंह,
रिटनिंग आफिसर।”

(5)

“दिल्ली में 5—बांदनी लोक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री भीकूराम जैन,

49, राजपुर रोड, दिल्ली-110054

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 7-1-1980

(ह०) अपठनीय,
रिटनिंग आफिसर।”

(6)

“दिल्ली में 6—दिल्ली सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री जगदीश टाइटलर,

12-बी, पूर्वी मार्ग, करोल बाग, नई दिल्ली

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 6-1-1980

(ह०) एम० एल० शरोडा,
रिटनिंग आफिसर।”

(7)

“दिल्ली में 7—करोल बाग (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,

श्री धर्मदास शास्त्री,

ए-90, II, डी० डी० ए० क्वार्टर क्लक-ए गांव नारायणा, नई दिल्ली।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान : दिल्ली

तारीख : 7-1-1980

(ह०) एच० ए० अरफी,
रिटनिंग आफिसर।”

[सं० फा० 13 (8)/79-विधा० II]

ई० वेंकटेश्वरन, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 1980

S.O. 12(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected in the constituencies referred to therein, are published for general information :—

GUJARAT

(1)

“Election to the House of the People from the 1-Kutch Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mehta Mahipatray Mulshanker, Dr. M. M. Mehta Road, Nagar Chakla, Bhuj—Kutch.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bhuj

Date : 6-1-1980

(S.d) L. M. Sud,
Returning Officer.”

(2)

“Election to the House of the People from the 2-Surendranagar Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Digvijaysinh Pratapsinh Zala, Ranjit Vilas Palace, Wankaner—363621.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Surendranagar

Date : 7-1-1980

(Sd.) A. K. PRADHAN
Returning Officer.”

(3)

*"Election to the House of the People from the
3-Jamnagar Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jadeja Dolatsinhji Pratapsinhji Panchvati Society,
Bedi Bander Road, Jamnagar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jamnagar (Sd.) A. MYANGER,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People from the
4-Rajkot Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mavani Ramjibhai Bhurabhai Near Darbargadh,
Dhoraji, District Rajkot.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Rajkot (Sd.) A. R. BANERJEE,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(5)

*"Election to the House of the People from the
5-Porbandar Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Odedra Maldevji Mandlikji, Satya Narayan Mandir
Road, Porbandar (Gujarat)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Porbandar (Sd.) G. R. VIRDI,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People from the
6-Junagadh Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Mohanlal Laljibhai of Junagadh, 5-Jayashri-
nagar, "Darpan"

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Junagadh (Sd.) A. M. BHARDWAJ,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(7)

*"Election to the House of the People from the
7-Amreli Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ravani Navinchandra Parmananddas, Gandhi Society,
Savarkundla

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Amreli (Sd.) MANJULA SUBRAMANIAM,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

1080 GI/79-3

(8)

*"Election to the House of the People from the
8-Bhavnagar Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gohil Ghibabhai Bhavubhai, At Khari, Post Galthar,
Taluka—Mahuva, Distt. Bhavnagar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bhavnagar (Sd.) K. C. MAHAPATRA,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(9)

*"Election to the House of the People from the
9—Dhandhuka (SC) Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Makwana Narsinhbhai Karsanbhai, 34 Jaijagat
Society, Behrampur, Ahmedabad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ahmedabad (Sd.) J. S. RANA,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(10)

*"Election to the House of the People from the
10—Ahmedabad Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Maganbhai Ranchhoddas Barod, Lavanya, Near
Sadar Stadium, Ahmedabad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ahmedabad, (Sd.) ASHOK CHAWLA,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(11)

*"Election to the House of the People from the
11—Gandhinagar Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Amrit Mohanlal Patel, 22/A-Maher Apartment,
Anesty Road of Almount Road, Bombay-400026.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ahmedabad, (Sd.) P. B. BUCH,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(12)

*"Election to the House of the People from the
12—Mehsana Parliamentary Constituency in Gujarat"*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Choudhary Motibhai Ranchhodbhai, Gram Bharati,
Village : Amtrapur, Taluka : Kalol, Distt. Mehsana

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Mehsana (Sd.) A.W.P. DAVI,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(13)

*"Election to the House of the People from the***13—Patan (SC) Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Parmar Hiralal Ranchhoddas, Sarvodayanagar Society, Mehsana

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Patan

(Sd.) A. C. JOSHI,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(14)

*"Election to the House of the People from the***14—Banaskantha Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Bheravdan Khetdanji Gandhavi, Sukhbaug, Palanpur, Distt. Banaskantha

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Palanpur.

(Sd.) K. C. KAPOOR,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(15)

*"Election to the House of the People from the***15—Subarkantha Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shantubhai Chunibhai Patel, Desainagar near Post Office, at & PO Talod Taluka ; Prantij, Distt. Sabarkantha

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Himatnagar

(Sd.) M. V. SOLANKI,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(16)

*"Election to the House of the People from the***16—Kapadwari Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Solanki Natavarsinhji Kesarasinhji, at & PO Mogar, Taluka Anand, Distt. Kheda

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Himatnagar

(Sd.) K. D. MEHTA,

Date : 6-1-1980

Returning Officer."

(17)

*"Election to the House of the People from the***17—Dohad (ST) Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Somjibhai Punjabhai Damor, Amrut Adivasi Society, Chankalia Road, Dohad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Dohad,

(Sd.) S. D. SHARMA,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(18)

*"Election to the House of the People from the***18—Godhra Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Maharaol Jaydeepsinhji, Subhagsinhji, "Avanti" Devgad—Baria

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Godhra

(Sd.) S. C. HALDER,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(19)

*"Election to the House of the People from the***19—Kaira Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ajitsinh Fulsinhji Dabhi, Saraswat Co-operative Housing Society, Behind Railway Station, Nadiad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nadiad

(Sd.) C. FERNANDEZ,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(20)

*"Election to the House of the People from the***20—Anand Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ishvarbhai Khodabhai Chavda, Satyagarh Chhavni, Borsad, Distt. Kaira

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Anand

(Sd.) KUNDAN LAL,

Date : 6-1-1980

Returning Officer."

(21)

*"Election to the House of the People from the***21—Chhota-Udaipur (ST) Parliamentary Constituency in Gujarat**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule

64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Rathawa Amarsinghbhai Viriyabhai, at, Vijali, Taluka Chhota-Udaipur, Distt. Baroda.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency,

Place Baroda

(Sd.) J. H. COHEL,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(22)

"Election to the House of the People from the

22—Baroda Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gaekwad Ranjitsinhji Pratapsinhji, Laxmi Vlas Palace, Baroda.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency,

Place : Vadodara

(Sd.) S. K. CHOUDHARY,

Date : 8-1-1980.

Returning Officer."

(23)

"Election to the House of the People from the

23—Broach Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Ahmedbhai Mohammedbhai, Patel Falia, At Piraman, Taluk Ankleshwar, Distt. Broach.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Broach

(Sd.) SANJIV MISRA,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(24)

"Election to the House of the People from the

24—Surat Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Chhaganbhai Devabhai Patel, Taiwad, At—Navsari, Distt. Valsad

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency,

Place : Surat,

(Sd.) B. NARASIMHAN,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(25)

"Election to the House of the People from the

25—Mandvi (S.T.) Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gamit Chhitubhai Devjibhai, At & Post Kanjod, Taluka Valod, District Surat.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Surat,

(Sd.) P. V. VYAS,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

(26)

"Election to the House of the People from the

26—Bulsar (S.T.) Parliamentary Constituency in Gujarat

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patel Uttambhai Harjibhai, At & Post Dumlav Tal. Pardi, Dist. Bulsar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bulsar,

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : 6-1-1980.

Returning Officer."

MAHARASHTRA

(1)

"Election to the House of the People from the

1—Rajapur Parliamentary Constituency in Maharashtra

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Prof. Madhu Dandavate, K-Sharadashram, Bhavani Shankar Road, Dadar, Bombay-28.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ratnagiri

(Sd.) R. B. BUDHIRAJA,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(2)

"Election to the House of the People from the

2—Ratnagiri Parliamentary Constituency in Maharashtra

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Bapusaheb Parulekar, Anand Bhavan, Ratnagiri.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ratnagiri

(Sd.) R. B. BUDHIRAJA,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(3)

"Election to the House of the People from the

3—Kulaba Parliamentary Constituency in Maharashtra

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ambaji Tukaram Patil, At & Post Washi, Tahsil Pen, District Kulaba.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Alibag

(Sd.) R. C. JOSHI,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People from the**4—Bombay South Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Rajda Ratansinh Gokuldas, 145-C, Dr. Viegas Street, Bombay-400002.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bombay (Sd.) NAND LAL,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(5)

*"Election to the House of the People from the**5—Bombay south Central Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri R.R. Bhole, 411, Shalaka, Maharshi Karve Road, Cooprage, Bombay 21

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bombay (Sd.) GOVIND SWARUP,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People from the**6—Bombay North Central Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Smt. Pramila Madhu Dandavate, K-1, Shardashram, Bhavani Shankar Road, Dadar Bombay-400028

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bombay (Sd.) J. L. PIMPLE
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(7)

*"Election to the House of the People from the**7—Bombay North East Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Dr. Subramaniam Swamy, Bauq K. Sara, 16- Neapean Sea Road, Bombay-400036.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bombay (Sd.) V. N. KARANDIKAR,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(8)

*"Election to the House of the People from the**8—Bombay North West Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ram Jethmalani, Advent, 2nd Entrance, General Jagannath Bhosle Marg, Colaba, Bombay-400005.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bombay (Sd.) R. Y. GAIKWAD,
Date : 6-1-1980 Returning Officer."

(9)

*"Election to the House of the People from the**9—Bombay North Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ravindra Varma, C/o Shri Hashmukh V. Upadhyaya, A/14 Kapole Society, Marve Road, Malad, Bombay-64.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jogeshwari, Bombay (Sd.) ILLEGIBLE,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(10)

*"Election to the House of the People from the**10—Thane Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mhalgi Ramchandra Kashinath, 465-Shanivar Peth, Pune, Maharashtra State.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Thane (Sd.) A. V. GOKAK,
Date : 8-1-1980 Returning Officer."

(11)

*"Election to the House of the People from the**11—Dahanu (S.T.) Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shingada Damu Barku, At & Post Posheri, Tabasil Wada, District Thane, Maharashtra State.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Thane (Sd.) A. V. GOKAK,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(12)

*"Election to the House of the People from the**12—Nasik Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Wagh Pratap Devaram, House No. 479, Wagh Bungalow, Gharpure Ghat, Nasik-422002.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nasik (Sd.) ARUNKUMAR MAGO,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(13)

*"Election to the House of the People from the
13—Malegaon (S.T.) Parliamentary Constituency in
Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kahandolt Zamaru Mangalu, Mani Taluka Surgana, District Nashik.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nashik (Sd.) ARUNKUMAR MAGO,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(14)

*"Election to the House of the People from the
14—Dhule (S.T.) Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Bhoys Reshma Motiram, Post Kudasi Taluka Sakri, District Dhule, Maharashtra.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Dhule (Sd.) AMITABH CHANDRA,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(15)

*"Election to the House of the People from the
15—Nandurbar (S.T.) Parliamentary Constituency in
Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Naik Surupsing Hirya, Post Nawagaon Taluka Nawapur, District Dhule, Maharashtra.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Dhule (Sd.) AMITABH CHANDRA,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(16)

*"Election to the House of the People from the
16—Erandol Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vijay Kumar Naval Patil, At & Post Naval Nagar, Taluka & District Dhule

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalgaon (Sd.) N. RAMARAO,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(17)

*"Election to the House of the People from the
17—Jalgaon Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Yadav Shivram Mahajan, 7/1 Pratap Nagar, Zilla Peth, Jalgaon

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalgaon (Sd.) N. RAMARAO,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(18)

*"Election to the House of the People from the
18—Buldhana (S.C.) Parliamentary Constituency in
Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Wasnik Balkrishna Ramchandra, 365, Gandhi Nagar, Nagpur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Buldhana (Sd.) O. P. GAHROTRA,
Date : 7-1-1980 Returning Officer."

(19)

*"Election to the House of the People from the
19—Akola Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vairale Madhusudan Atmaram, Chandrakiran, Civil Lines, Akola

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Akola
Date : 7-1-1980

(Sd.) S. V. JOSHI,
Returning Officer."

(20)

*"Election to the House of the People from the
20—Washim Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gulam Nabi Azad, 24, Akbar Road, New Delhi-110011.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Akola
Date : 7-1-1980

(Sd.) S. V. JOSHI,
Returning Officer."

(21)

*"Election to the House of the People from the
21—Amravati Parliamentary Constituency in Maharashtra*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shrimati Usha Prakash Choudhari, Mudholkar Peth, Amravati

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Amravati
Date : 7-1-1980

(Sd.) A. DAS GUPTA,
Returning Officer."

(22)

*"Election to the House of the People from the***22—Ramtek Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Barway Jatiram Chaitram, Ward No. 12, Ramtek,

At, Post & Tahsil—Ramtek, District Nagpur
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nagpur

Date : 8-1-1980

(Sd.) P. P. GODSHALWAR,
Returning Officer."

(23)

*"Election to the House of the People from the***23—Nagpur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Dhote Jambuwant Bapurao, Ravinagar, C-20/4, Nagpur.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nagpur

Date : 8-1-1980

(Sd.) P. P. GODSHALWAR,
Returning Officer."

(24)

*"Election to the House of the People from the***24—Bhandara Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Pardhi Kesharao Atmaramji, Indira Nagar, Tumsar, District Bhandara, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bhandara

Date : 7-1-1980

(Sd.) G. C. TRIPATHY,
Returning Officer."

(25)

*"Election to the House of the People from the***25—Chimur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Muttemwar Vilas Baburao, Bazar Ward, Chandrapur, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bhandara

Date : 7-1-1980

(Sd.) G. C. TRIPATHY,
Returning Officer."

(26)

*"Election to the House of the People from the***26—Chandrapur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shantaram Rajeshwar Potdukhe, Jalnagar, Ward At & Post Chandrapur, Tah. & District Chandrapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Chandrapur

Date : 7-1-1980

(Sd.) J. JOSEPH,
Returning Officer."

(27)

*"Election to the House of the People from the***27—Wardha Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vasant Rao Sathe, Dhantoli, Nagpur, Maharashtra
has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Wardha

Date : 7-1-1980

(Sd.) S. G. DAITHANKAR,
Returning Officer."

(28)

*"Election to the House of the People from the***28—Yavatmal Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Patil Uttam Rao Deorao, At and Post Loni, Taluka Darwaha, District Yavatmal

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Yavatmal

Date : 7-1-1980

(Sd.) L. HIMINGLIANA,
Returning Officer."

(29)

*"Election to the House of the People from the***29—Hingoli Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Uttam Rao Baliramji Rahod, At Post Mandvi, Taluka Kinwat, District Nanded

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nanded

Date : 7-1-1980

(Sd.) R. TIWARI,
Returning Officer."

(30)

*"Election to the House of the People from the***30—Nanded Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Chavan Shankarrao Bhaurao, At Post Dhanegaon, Taluka & District Nanded

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nanded

Date : 7-1-1980

(Sd.) R. TIWARI,
Returning Officer."

(31)

*"Election to the House of the People from the***31—Parbhani Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Yadav Ramrao Narayanrao, at Post Loni Via Ashti Taluka Partur, District Parbhani

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Parbhani

Date : 7-1-1980

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer."

(32)

*"Election to the House of the People from the***32—Jalna Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Balasaheb Pawar, Mohalla Shahabazar, Aurangabad, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Aurangabad

Date : 7-1-1980

(Sd.) G. S. SANDHU,
Returning Officer."

(33)

*"Election to the House of the People from the***33—Aurangabad Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kazi Saleem, Manzoorpura, Aurangabad, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Aurangabad

Date : 7-1-1980

(Sd.) G. S. SANDHU,
Returning Officer."

(34)

*"Election to the House of the People from the***34—Beed Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Sow Kshirsagar Kesharbai Sonajirao alias Kaku, At & Post Rajuri Bz. Tq. Beed, Dist. Beed, Maharashtra

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Beed
Date : 7-1-1980

(Sd.) L. D. LAKHAR,
Returning Officer."

(35)

*"Election to the House of the People from the***35—Latur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shivraj Vishwanath Patil, R/o Tilak Nagar, Latur has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Osmanabad

Date : 7-1-1980

(Sd.) A. L. BONGIRWAR,
Returning Officer."

(36)

*"Election to the House of the People from the***36—Osmanabad (S.C.) Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Sawant Traymbak Marotrao, R/o Gangakhed, District Parbhani

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Osmanabad

Date : 7-1-1980

(Sd.) A. L. BONGIRWAR,
Returning Officer."

(37)

*"Election to the House of the People from the***37—Solapur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kuchan Gangadhar Sidramappa, 386/87 Jodbhavi Peth, Solapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Solapur

Date : 7-1-1980

(Sd.) P. D. KARANDIKAR,
Returning Officer."

(38)

*"Election to the House of the People from the***38—Pandharpur (S.C.) Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Thorat Sandipan Bhagwan, 16/120 Shivaji Nagar Modikhana, Solapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Solapur

Date : 7-1-1980

(Sd.) P. D. KARANDIKAR,
Returning Officer."

(39)

*"Election to the House of the People from the***39—Ahmednagar Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Athare Chandrabhan Balaji, Satbhai Mala, Near Balikashram, Delhi Gate, Ahmednagar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ahmednagar

Date : 7-1-1980

(Sd.) S. PRABHAKARAN,
Returning Officer."

(40)

*"Election to the House of the People from the***40—Koparguon Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vikhe Eknathrao Vithalrao, At Loni B. K. Post,
Loni Khd. Tal-Shrirampur, District Ahmednagar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ahmednagar

(Sd.) S. PRABHAKARAN,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(41)

*"Election to the House of the People from the***41—Khed Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provision, contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri More Ramkrishna Sadashiv, At and Post Dehu,
Taluka Haveli, District Pune

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Pune

(Sd.) S. S. VARTAK,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(42)

*"Election to the House of the People from the***42—Pune Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vitthal Narhar Gadgil, 419, Shaniwar Peth, Pune-30.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Pune

(Sd.) A. M. NIMBALKAR,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(43)

*"Election to the House of the People from the***43—Baramati Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Shankarrao Bajirao Patil, Shiv Krina Bunglow, Sahajeevan Housing Society, Ganeshkhind Road, Pune-7

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Pune

(Sd.) A. M. NIMBALKAR,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(44)

*"Election to the House of the People from the***44—Satara Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Chavan Yashwantrao Balwantrao, 13-14, Shivaji Nagar, Karad, District Satara

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Satara

(Sd.) ARUN BHATIA,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(45)

*"Election to the House of the People from the***45—Karad Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Yashwantrao Hjiaba Mohite, H. No. 634 Retharo
BK. Tahsil Karad, District Satara

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Satara

(Sd.) ARUN BHATIA,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(46)

*"Election to the House of the People from the***46—Sangli Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Fatil Vasantrao Banduji, H. No. 161, Padmale, Taluka
Miraj, District Sangli

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sangli

(Sd.) V. K. AGGARWAL,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(47)

*"Election to the House of the People from the***47—Ichalkeranji Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mane Rajaram alias Balasaheb Shankarrao, At and
Post Rukadi, Taluka Hatkanangle, District Kolhapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Kolhapur

(Sd.) R. M. PREMKUMAR,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

(48)

*"Election to the House of the People from the***48—Kolhapur Parliamentary Constituency in Maharashtra**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Gaikwad Udayasingrao Nanasaheb, At and Post
Supatre, Taluka Shahuwadi, District Kolhapur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Kolhapur

(Sd.) R. M. PREMKUMAR,
Returning Officer."

Date : 7-1-1980

RAJASTHAN

(5)

(1)

*"Election to the House of the People from the**1—Ganganagar (S.C.) Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Birbal, Village and Post Office Mirzawale Mare, Tehsil Tibbi, District Ganganagar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sriganganagar

(Sd.) M. D. KAURANI,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People from the**2—Bikaner Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Manphool Singh, Village and Post Badopal, District Sri Ganganagar.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bikaner

(Sd.) GUMAN SINGH,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(3)

*"Election to the House of the People from the**3—Churu Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Daulat Ram Saran, B-128 A, Rajendra Marg, Bapu Nagar, Jaipur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Churu

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(4)

*"Election to the House of the People from the**4—Jhunjhunu Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Bhim Singh, Mandawa

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jhunjhunu

(Sd.) M. S. MOGRA,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

1080 GI/79-4

*"Election to the House of the People from the**5—Sikar Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Kumbha Ram Arya, Choudhary Farm, Durgapura, Jaipur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sikar

(Sd./-) PARMESH CHANDRA,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(6)

*"Election to the House of the People from the**6—Jaipur Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Satish Chandra Agarwal, L-1, Krishna Marg, C-Scheme, Jaipur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : 8-1-1980

Returning Officer."

(7)

*"Election to the House of the People from the**7—Dausa Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Nawal Kishore Sharma, 50-B, Janta Colony, Jaipur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(8)

*"Election to the House of the People from the**8—Alwar Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ram Singh Yadav, 28-Lajpat Nagar, Alwar

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Alwar

(Sd./-) SURENDRA KUMAR,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(9)

*"Election to the House of the People from the**9—Bharatpur Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Rajesh Pilot, 92-Anand Lok, New Delhi

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bharatpur

(Sd.) G. N. HALDEA,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(10)

*"Election to the House of the People from the**10—Bayana Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jagannath Prasad Pahadia, Resident of Bhusawar, Tehsil Weir, District Bharatpur (Rajasthan)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bharatpur

(Sd.) G. N. HALDEA,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(11)

*"Election to the House of the People from the**11—Sawaimadhopur Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ram Kumar, Village Shekhpura, Tehsil Sapotra, District Sawaimadhopur (Rajasthan)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sawaimadhopur

(Sd.) ILLEGIBLE,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(12)

*"Election to the House of the People from the**12—Ajmer Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Acharya Bhagwande, 139, Lodhi Road, Arya Bhan, Jor Bagh, New Delhi

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Ajmer

(Sd.) PRAHLAD RAI,

Date : 7-1-1980

Returning Officer."

(13)

*"Election to the House of the People from the**13—Tonk(S.C.) Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declared that :—

Shri Banwarilal Bairwa, Daulatpura, Dhanna Talai, Tonk

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Tonk

Date : 7-1-1980

(Sd) Illegible

Returning Officer."

(14)

*"Election to the House of the People from the**14—Kota Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declared that :—

Shri Krishna Kumar Goyal, Vigyan Nagar, Kota

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Kota

Date : 8-1-1980

(Sd) D.C. SAMANT,

Returning Officer."

(15)

*"Election to the House of the People from the**15—Jhalawar Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declared that :—

Shri Chaturbhuj, Village Antana, Tehsil Atru, District Kota

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jhalawar

Date : 8-1-1980

(Sd./-) CHANCHAL RAJ MEHTA

Returning Officer."

(16)

*"Election to the House of the People from the**16—Banswara Parliamentary Constituency in Rajasthan*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declared that :—

Shri Bhikha Bhai, Vadio-Ka-Dungra, Post-Sagwara, District Dungarpur

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Banswara

Date : 7-1-1980

(Sd./-) NITAI CHAND

Returning Officer."

(17)

*"Election to the House of the People from the***17—Salumber Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jai Narayan S/o Shri Lalu, 2-Ka-17, Sector No. 13, Hiran Magri, Udaipur,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Udaipur (Rajasthan)

Date : 7-1-1980

(Sd.) B. S. MINHAS,
Returning Officer."

(18)

*"Election to the House of the People from the***18—Udaipur Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mohan Lal Sukhadia, S/o Shri Purshottam Das, Durga Nursery, Udaipur,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Udaipur (Rajasthan)

Date : 7-1-1980

(Sd.) B. S. MINHAS,
Returning Officer."

(19)

*"Election to the House of the People from the***19—Chittorgarh Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shrimati Nirmala Kumari, Farm House V. & P.O. Ochhari, Via Senth, District Chittorgarh,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Chittorgarh

Date : 7-1-1980

(Sd.) S. D. SRIVASTAV,
Returning Officer."

(20)

*"Election to the House of the People from the***20—Bhilwara Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Girdhari Lal, Badnore, Tehsil Asind,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bhilwara

Date : 7-1-1980

(Sd.) J. P. SINGH,
Returning Officer."

(21)

*"Election to the House of the People from the***21—Pali Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Vakil Moolchand Daga, Ojhaji Ka Bas, Pali (Rajasthan)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Pali

Date : 8-1-1980

(Sd./-) ANAND PRASHAD
Returning Officer."

(22)

*"Election to the House of the People from the***22—Jalore (S.C.) Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Viridaram, Jatiyo-Ka-Bas, Bhinmal, District Jalore.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jalore

Date : 7-1-1980

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer."

(23)

*"Election to the House of the People from the***23—Barmer Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Viridhi Chand, Advocate, Sunaron-Ka-Bas, Barmer, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Barmer

Date : 8-1-1980

(Sd./-) ILLEGIBLE
Returning Officer."

(24)

*"Election to the House of the People from the***24—Jodhpur Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Ashok Gehlot, Brahampuri, Mahamandir, Jodhpur, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jodhpur

Date : 7-1-1980

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer."

(25)

*"Election to the House of the People from the***25—Nagaur Parliamentary Constituency in Rajasthan**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Nathu Ram, V. & P.O. Kuchera, Tehsil Nagaur, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Nagaur
Date : 7-1-1980

(Sd.) PRAKASH CHANDRA JAIN,
Returning Officer."

CHANDIGARH

(1)

*"Election to the House of the People from the***1—Chandigarh Parliamentary Constituency in Chandigarh**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jagan Nath, H. No. 221, Sector 9-C, Chandigarh, has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Chandigarh
Date : 7-1-1980

(Sd./-) R. S. MALIK
Returning Officer."

DADRA AND NAGAR HAVELI

(1)

*"Election to the House of the People from the***1—Dadar and Nagar Haveli Parliamentary Constituency in Dadra and Nagar Haveli**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Mahala Ramji Potia, At Kuncha P.O. Dudhani (Dadra and Nagar Haveli),

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Silvassa
Date : 6-1-1980

(Sd.) ILLEGIBLE,
Returning Officer."

LAKSHADWEEP

(1)

*"Election to the House of the People from the***1—Lakshadweep (S.T.) Parliamentary Constituency in Lakshadweep**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule

64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Muhammad Sayeed Padannatha, Padannatha House, Androth Island,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Kavaratti
Date : 6-1-1980

(Sd./-) M. KUMARAN,
Returning Officer."

DELHI

(1)

*"Election to the House of the People from the***1—New Delhi Parliamentary Constituency in Delhi**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Atal Behari Vajpayee, 7 Safdarjang Road, New Delhi,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : New Delhi
Date : 6/7-1-1980

(Sd./-) G. P. SEWALIA,
Returning Officer."

(2)

*"Election to the House of the People from the***2—South Delhi Parliamentary Constituency in Delhi**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Sh. Charanjit Singh, 9 Block A, West Friends Colony, New Delhi.

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : New Delhi
Date : 7-1-1980

(Sd./-) B. PRASAD,
Returning Officer."

(3)

*"Election to the House of the People from the***3—Outer Delhi Parliamentary Constituency in Delhi**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Sajjan Kumar, 713-A-B, Paschim-puri, Janta Colony, Madipur, New Delhi,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Model Town
Date : 7-1-1980

(Sd.) A. C. KHER,
Returning Officer."

(4)

Election to the House of the People from the4—East Delhi Parliamentary Constituency in Delhi*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri H. K. L. Bhagat, D-14A/14, Model Town, Delhi,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Delhi

Date : 7-1-1980

(Sd./-) M. D. SINGH,
Returning Officer."

(5)

Election to the House of the People from the5—Chandni Chowk Parliamentary Constituency in Delhi*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Bhiku Ram Jain, 49 Rajpur Road, Delhi-110054,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Delhi

Date : 7-1-1980

(Sd./-) ILLEGIBLE,
Returning Officer."

(6)

Election to the House of the People from the6—Delhi Sadar Parliamentary Constituency in Delhi*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Jagdish Tytler, 12-B, Purvi Marg, Karol Bagh, New Delhi,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Delhi

Date : 6-1-1980

(Sd./-) S. L. ARORA,
Returning Officer."

(7)

Election to the House of the People from the7—Karol Bagh (S.C.) Parliamentary Constituency in Delhi*

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

Shri Dharam Dass Shastri, A-90, II, DDA Qrs. Block-A Village Naraina, New Delhi,

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Delhi

Date : 7-1-1980

(Sd./-) H. A. ARFI,
Returning Officer."

[No. F. 13(8)/79-Leg. II]
E. VENKATESWARAN, Jt. Secy.

